



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 (ii)
PART II—Section 3 (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 484]
No. 484]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 31, 1983/कार्तिक 9, 1905
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 31, 1983/KARTIK 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भूमि और पुनर्वास मंत्रालय

अनुसूची

(भूमि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1983

क्र० आ० 785(अ).—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) के माध्यम से धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने इससे उपान्वित अनुसूची के क्रमशः स्तम्भ 3 तथा 4 में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम उजरती दर तथा प्रति कर्मचारी प्रतिदिन की न्यूनतम प्रत्याभूत उजरती मजदूरी दर, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में दी गई तरतुबद्धी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश के रायसेन जिले की पर्यटन स्थलों में कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए उजरती कार्य के लिए संवेद्य है, को निर्धारित करने के लिए मिमलिखित प्रस्ताव बनाए हैं, जो उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अधिधि के अवधान से पूर्व उक्त प्रस्तावों की बाबत, जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

कर्मचारी द्वारा किए गए उजरती कार्य की किस्म	मजदूरी की न्यूनतम उजरती दर	प्रति कर्मचारी प्रतिदिन की न्यूनतम प्रत्याभूत उजरती दर
1. 50 मीटर लेड/1.5 मी० लिफ्ट के साथ अधिधार का उत्खनन करना/हटाना		
(i) सॉफ्ट सॉयल	र० 20 प्रति 2.831 घन मीटर (सौ घन फुट)	9.75 रु०
(ii) पर्यटन मिश्रित सॉफ्ट सॉयल	र० 30 प्रति 2.831 घन मीटर (सौ घन फुट)	9.75 रु०
(iii) चट्टान	र० 40 प्रति 2.831 घन मीटर (सौ घन फुट)	9.75 रु०
2. 50 मी० लंब/1.5 मी० लिफ्ट के साथ किए गए पर्यटन को हटाना तथा उनका चट्टान लगाना	र० 16 प्रति 2.831 घन मीटर (सौ घन फुट)	9.75 रु०
3. लदान	र० 70 प्रति ट्रक	9.75 रु०
4. प्रस्तर खंड को तहनों में विभाजित करना तथा उन्हें लंबाई- चौड़ाई में काटना।	र० 2.50 प्रति 0.028 घन मीटर (सौ घन फुट)	15.00 रु०

स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना के अनुसार निर्धारित न्यूनतम उजरती दर सर्वसम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारी दर जीवन निर्वाह भत्ता आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रवासों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा माप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी इसमें सम्मिलित है।
2. मजदूरी की न्यूनतम दर ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू है।
3. जहाँ पर संविदा या करारभा किसी अन्य आधार पर निर्धारित मजदूरी की प्रचलित दर इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर है वहाँ ऐसी उच्चतर दरों को रक्षित रखा जाएगा तथा उन्हें इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम दरें समझा जाएगा।
4. सभी उजरती दर कर्मचारियों के लिए न्यूनतम प्रत्याभूति मजदूरी अर्थात् निर्वाह योग्य मजदूरी अनुसूची में कार्य के प्रत्येक वर्ग सामने स्तम्भ 4 में यथा-निर्दिष्ट के अनुसार होगी।
5. एक ही कार्य या एक ही किस्म के कार्य के लिए पुरुष-तथा महिला कर्मचारी मजदूरी की समान दरें प्राप्त करेंगे।
6. असमर्थ और अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दर समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मचारियों को संश्लेष दरों का क्रमशः सौ प्रतिशत और अस्सी प्रतिशत होंगी।

[सं० एम-32015/1/83-इस्स्यू सी० (एम० इस्स्यू०)]

बिशम्भर नाथ, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 1983

S.O. 785(E).—The following proposals made by the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (1) of Section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of Section 4 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), for fixing the minimum piece-rates of wages and minimum guaranteed time rate of wages per day per employee as specified in columns 3 and 4 respectively of the Schedule annexed hereto, payable to the employees for piece work done by them in stone mines, in Raisen district of Madhya Pradesh as specified in the corresponding entries in column (2) of the said Schedule are hereby published, as required by clause (b) of sub-section (i) of section 5 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby

given that the said proposals shall be taken into consideration after the expiry of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said proposals before the expiry of period specified above will be considered by the Central Government.

SCHEDULE

Sl. No.	Nature of piece work done by an employee	Minimum piece rate of wages	Minimum guaranteed time-rate of wage per day per employee
1	2	3	4
1.	Excavation and removal of overburden with 50 Metres lead/1.5M. lift		Rs.
	(i) Soft Soil	Rs. 20/- per 2.831 Cubic Metres (100 Cft.)	9.75
	(ii) Soft Soil mixed with rock	Rs. 30/- per 2.831 Cubic Metres (100 Cft.)	9.75
	(iii) Rock	Rs. 40/- per 2.831 Cubic Metres (100 Cft.)	9.75
2.	Removal and stacking of reject stone with 50M. lead, 1.5M. lift	Rs. 16/- per 2.831 Cubic Metres (100 Cft.)	9.75
3.	Loading	Rs. 70/- per Truck	9.75
4.	Splitting of flagstone in layers and cutting in dimensions	Rs. 2.50 per 0.028 Cubic Metres (One Cft.)	15.00

Explanation:—

1. The minimum piece rates of wages fixed as per this notification are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.
2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.
3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the notified rates under the Act, the higher rates would be protected and treated as the minimum rates of wages for the purposes of this notification.
4. The minimum guaranteed wage, i.e. the fall-back wage for all piece rated employees shall be as specified under column 4 of the Schedule against each category of work.
5. Men and women employees shall get the same rates of wages for the same work or work of a similar nature.
6. The minimum guaranteed rates of wages for disabled persons and for persons below eighteen years of age shall be 100% and 80% respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

[N.S. 32015(1)/83-WC(MW)]
BISHAMBHAR NATH, Under Secy.